



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 800) पटना, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर 2014

सं0 22 नि0 सि0(यँ0)—04—09/2011/1452—श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (यँ0), सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, दरभंगा सम्प्रति सहायक अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के विरुद्ध पदस्थापन अवधि में काम नहीं कराना, धटिया कार्य कराना, कार्य में विलम्ब करना, कार्य में लापरवाही बरतना, सरकारी राशि का दुरुपयोग करना एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहना आदि कतिपय आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संकल्प सं0—1612 दिनांक 27.12.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदधिकारी अपने पत्रांक 54 दिनांक 25.4.12 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के मंतव्य से सहमति एवं असहमति के विन्दुओं पर प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 427 दिनांक 9.4.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री सिंह अपने पत्रांक शून्य दिनांक 29.4.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त आरोप सं0—1 एवं 2 को प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह के विरुद्ध निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया:—

1. निन्दन वर्ष 2011—12
2. दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सिंह, सहायक अभियन्ता (रॉ0) को निम्न दण्ड किया जाता है:-

1. निन्दन वर्ष 2011-12
 2. दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
- उक्त दण्ड श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 800-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>